

54 लाख के नकली नोट व करोड़ों के डॉलर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

Updated on 12/27/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। स्पेशल सेल की टीम ने पांच ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो नकली नोटों की सप्लाई करते थे। उनके पास से स्पेशल सेल की टीम ने 54 लाख रुपए के नकली नोट के अलावा एक करोड़ से अधिक मूल्य के डॉलर जब्त किया। उनके पास से दो पिस्टल और चार जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है।

[अजमेर से दिल्ली आकर देते थे वारदात को अंजाम, नाबालिग सहित गिरफ्तार](#)

2000 रुपए, 500 रुपए और 100 रुपए के फर्जी नोट किए जब्त

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी तबरेज अहमद (38), सीलमपुर निवासी सौयब मलिक (28), बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश निवासी रघुराज सिंह (52), मुस्तफाबाद निवासी दानिश मलिक (28) और दरिया गंज निवासी उस्मान अंसारी (40) के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से 2000 रुपए, 500 रुपए और 100 रुपए के फर्जी नोट जब्त किए गए हैं।

[CAA Protest: CCTV कैमरे खोलेंगे जामिया हिंसा के कई राज](#)

नोटबंदी के बाद फिर से दिल्ली में फर्जी नोट की तस्करी

स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि बीते महीने टीम को सूचना मिली थी कि नोटबंदी के बाद फिर से दिल्ली में फर्जी नोट का तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 20 दिसम्बर को लक्ष्मी नगर से तबरेज, सौयब और रघुराज सिंह को गिरफ्तार किया।

[युवक ने की अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार](#)

पुलिस ने 1675 अमेरिकी डॉलर जब्त किए

तीनों आरोपी यहां पर तीन लाख रुपए के फर्जी नोट लेकर आए थे। इन नोट के बदले आरोपी 100 रुपए और 20 रुपए के असली नोट लेना चाह रहे थे। इन तीनों तस्करों से पूछताछ के आधार पर टीम ने दानिश मलिक और उस्मान अंसारी को गिरफ्तार किया। उस्मान अंसारी की निशानदेही पर पुलिस ने 1675 अमेरिकी डॉलर जब्त किए, जिनकी कीमत एक करोड़ 17 लाख 25 हजार रुपए के बराबर है।

Source: <https://www.navodayatimes.in/news/crime-plus/delhi-police-arrest-5-smugglers-with-fake-notes-of-54-lakhs-and-dollars-of-crores/132900/>